



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 17—अक्टूबर 23, 2009 (आश्विन 25, 1931)
No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 17—OCTOBER 23, 2009 (ASVINA 25, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 सितम्बर 2009

सं. आरएस./6/4/2009/76-कार्मिक--श्री वाई. सत्य कुमार को गृह कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष (श्री एम. वैकैया नायडु) के वैयक्तिक स्टाफ में 01 सितम्बर, 2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक राज्य सभा सचिवालय में 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. श्री वाई. सत्य कुमार की नियुक्ति गृह कार्य संबंधी समिति के वर्तमान अध्यक्ष के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस./6/4/2009/77-कार्मिक--श्री सतीश धर को वाणिज्य समिति के अध्यक्ष (श्री शांता कुमार) के वैयक्तिक स्टाफ में 31 अगस्त, 2009 के

पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक राज्य सभा सचिवालय में 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. श्री सतीश धर की नियुक्ति वाणिज्य समिति के वर्तमान अध्यक्ष के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस./6/5/2009/78-कार्मिक--श्री पारितोष भट्टाचार्य, जिन्हें राज्य सभा में भाजपा के भूतपूर्व मुख्य सचेतक श्री एस. एस. अहलुवालिया के वैयक्तिक स्टाफ में राज्य सभा सचिवालय में निजी सचिव के रूप में सह-पदावसान के आधार पर नियुक्त किया गया था, की सेवाएं 03 जून, 2009 के पूर्वाह्न से समाप्त कर दी गई हैं।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस./6/5/2009/79-कार्मिक--श्री पारितोष भट्टाचार्य को भाजपा के उप-नेता (श्री एस. एस. अहलुवालिया) के वैयक्तिक स्टाफ में 03 जून, 2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक राज्य सभा सचिवालय में 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 5,400/- रुपए के ग्रेड वेतन में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. श्री पारितोष भट्टाचार्य की नियुक्ति राज्य सभा में भाजपा के वर्तमान उप-नेता के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस./6/5/2009/80-कार्मिक--श्री केशव कुमार को भाजपा के मुख्य सचिव (श्रीमती माया सिंह) के वैयक्तिक स्टाफ में 01 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक राज्य सभा सचिवालय में 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 5,400/- रुपए के ग्रेड वेतन में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. श्री केशव कुमार की नियुक्ति राज्य सभा में भाजपा के वर्तमान मुख्य सचिव के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, 3 सितम्बर 2009

सं. ए-43013/01/2006-प्रशा.-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अगस्त, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/16/2007-सीएस.-I द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अधिकारियों की वर्ष 2003 की चुनिंदा सूची में निम्नलिखित अधिकारियों के नाम शामिल कर लिए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, इस सचिवालय के इन ग्रेड-I अधिकारियों (अवर सचिव) (तदर्थ) को 01 जुलाई, 2003 से नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा में ग्रेड-I (अवर सचिव) नियुक्त करते हैं :-

क्र. नाम (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.08.2009 के सं. कार्यालय ज्ञापन सं. 5/16/2007-सीएस.-I के अनुबंध की क्रम संख्या तथा सीएस एल सं.)

सर्वश्री

1. आर. कृष्णामूर्ति (क्र.सं. 101) (सीएसएल सं. 4333)
2. ए. मोहनन (क्र.सं. 276) (सीएसएल सं. 4597)
3. एम. दिनाकरन (क्र.सं. 295) (सीएसएल सं. 4619)
4. वेद प्रकाश अरोड़ा (क्र.सं. 325) (सीएसएल सं. 4679)
5. दिनेश अरोड़ा (क्र.सं. 487) (सीएसएल सं. 4900)
6. एम. पी. सजीवन (क्र.सं. 505) (सीएसएल सं. 4929)

सुनील मिश्र, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 2009

सं. ए-19012/01/2009-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, भा.प्र.से. (यूटी : 89) को 10 सितम्बर, 2009 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 37,400--67,000/- रुपए के वेतन बैंड (वेतन बैंड-4) जमा 10,000/- रुपए के ग्रेड वेतन में राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार समझौता, मंत्रिमंडल सचिवालय में संयुक्त सचिव तथा निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. कृष्णामूर्ति, अवर सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बैंगलूर-560231, दिनांक 30 सितम्बर 2009

सं. 2/1/6/2004-I--श्री एस. वी. रंगनाथ, भा.प्रशा.से. (कर्नाटक : 75) ने अपने प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप अन्तरिक्ष विभाग में सदस्य (वित्त), अन्तरिक्ष आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग व पृथ्वी आयोग के पद का कार्यभार सितम्बर 30, 2009 के पूर्वाह्न से छोड़ दिया है।

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 सितम्बर 2009

सं. एफ 6(2064)/2008-प्रशा.-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.09.2009 के आदेश संख्या 14/4/2009-ईओ(एसएमआई) के तहत यथा सूचित सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसरण में, श्री भास्कर चटर्जी, आईईएस (ओआर : 75), प्रधान सलाहकार, योजना आयोग को लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्योग मंत्रालय में सचिव के रूप में नया कार्य-भार ग्रहण करने हेतु दिनांक 07.09.2009 के पूर्वाह्न से योजना आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है।

एस. केशव अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 10 सितम्बर 2009

सं. ए-43014/02/2009-प्रशा.-II--भारतीय आर्थिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) में नियमित पदोन्नति तथा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के आदेश सं. 13016/3/2009-आईईएस दिनांक 04.09.2009 के तहत आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में उप आर्थिक सलाहकार के रूप में तैनाती के फलस्वरूप श्री गंगा राम, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, योजना को दिनांक 10.09.2009 के अपराह्न से कार्यमुक्त किया जाता है।

एस. केशव अय्यर, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 सितम्बर 2009

सं. एफ 6(2102)/2009-प्रशा.-I--आर्थिक-कार्य विभाग की फाइल संख्या 13016/3/2009-आईईएस से जारी किए गए दिनांक 04.09.2009 के आदेश संख्या पी-7/2009 के अनुसरण में, श्री शिव सिंह मीणा, आईईएस

के जेएजी अधिकारी ने दिनांक 07.09.2009 (पूर्वाह्न) से वेतन बैंड-3 अर्थात् रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन 7,600/- रु. में योजना आयोग में उप-सलाहकार के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

2. जेएजी में उनकी पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में लम्बित सिविल रिट याचिका 5953/02 के अंतिम नतीजे के अध्याधीन होगी।

एस. केशव अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 18 सितम्बर 2009

सं. ए-12025/01/2005-प्रशा.-II--योजना आयोग की दिनांक 24 मार्च, 2009 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, श्रीमती सुरेखा सोनी, सांख्यिकी अन्वेषक, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की योजना आयोग में 15,600--39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 में अनुसंधान अधिकारी के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि एतद्वारा 12.03.2010 तक, अथवा पद के नियमित रूप से भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

2. तदर्थ नियुक्ति श्रीमती सुरेखा सोनी को अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करेगी और न ही अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर उनके द्वारा दी गई सेवा को अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ और न ही अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु गिना जाएगा।

एस. केशव अय्यर, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर 2009

सं. ए-12026/5/2000-प्रशा.-I (वि.वि.)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अगस्त, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं0 5/16/2007-के. सचि.(डी) के अनुसरण में सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्ति हेतु वर्ष 2003 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की चयन सूची में उनका नाम सम्मिलित कर लिए जाने के परिणाम स्वरूप, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर कार्यरत श्री बिजेन्द्र सिंह को दिनांक 01 जुलाई, 2003 से नियमित आधार पर अवर सचिव (के. सचि. सेवा का ग्रेड-I) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

2. नियमित आधार पर अवर सचिव के पद पर श्री बिजेन्द्र सिंह की नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में सी.डब्ल्यू.पी.सं. 13352/2005 में अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी।

एम. आर. बीर, उप सचिव

दिनांक 25 सितम्बर 2009

सं. ए-12025/02/2009-प्रशा.-I (वि.वि.)--विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में सक्षम प्राधिकारी, विधायी विभाग में वर्तमान में तदर्थ आधार पर अधीक्षक (विधि) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत श्री आर. एस. जयकृष्णन, सहायक

(विधि) को विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में रुपए 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 + रु. 4,800/- के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर, अधीक्षक (विधि) के पद पर दिनांक 25 सितम्बर 2009 की पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम. आर. बीर, उप सचिव

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 2009

सं. ए-12026/1/2005-प्रशा.-I (वि.का.)--विधि कार्य विभाग में सक्षम प्राधिकारी, विभाग की नियमित वरिष्ठ पुस्तकालय सूचना सहायक श्रीमती चम्पा बिष्ट को दिनांक 12.08.2009 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए या पद पर नियमित पदधारी की नियुक्ति होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विभाग के पुस्तकालय व अनुसंधान अनुभाग में पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-I (वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- तथा ग्रेड वेतन रु. 4,600/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. रवीन्द्रन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2009

सं. ए-38013/3/2009-प्रशा.-IV (वि.का.)--अधिवर्षिता की आयु होने पर, श्री सुखविन्दर सिंह ग्रेवाल, निजी सचिव, दिनांक 30 सितम्बर, 2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं।

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2009

सं. I-18011/11/2009-आईपीएस-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती धनप्रीत कौर, आई. पी. एस. (पी. बी. : 06) को 29.08.2007 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आईपीएस-IV)

सं. I-18011/13/2009-आईपीएस-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं :--

क्र. सं.	आईपीएस परीक्षाधीन अधिकारियों के नाम	भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति की तारीख	सामान्य स्थिति में परीक्षा की अवधि समाप्त होने की तारीख	स्थायी किए जाने की तारीख
1.	सुश्री सुमेधा	22.08.05 (पूर्वाह्न)	21.08.07	22.08.07
2.	श्री अशोक कुमार	29.08.08 (पूर्वाह्न)	28.08.08	29.08.08
3.	श्री अभिषेक दुलार	30.08.06 (पूर्वाह्न)	29.08.08	30.08.08

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आईपीएस-IV)

सं. I-18011/12/2009-आईपीएस-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं :-

क्र. आईपीएस परिवीक्षाधीन सं. अधिकारियों के नाम	स्थायी किए जाने की तारीख
1. श्रीमती परम ज्योति	22.08.07
2. श्री विजयेन्द्र बिद्री	12.12.07
3. श्री विष्णु कांत	12.12.07
4. श्री अजय पाल लांबा	12.12.07

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आईपीएस-IV)

दिनांक 6 अक्टूबर 2009

सं. I-18011/6/1998-आईपीएस-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं :-

आईपीएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों के नाम	भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति की तारीख	सामान्य स्थिति में परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने की तारीख	स्थायी किए जाने की तारीख
श्री बी. वी. श्रीनिवास राव (आर आर : 95)	05.09.96	04.09.98	05.09.98

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आईपीएस-IV)

सं. I-18011/17/2009-आईपीएस-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं :-

क्र. आईपीएस सं. परिवीक्षाधीन अधिकारियों के नाम	भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति की तारीख	सामान्य स्थिति में परिवीक्षा की अवधि पूरी करने की तारीख	सामान्य स्थिति में स्थायी किए जाने की तारीख
1. एस. आनंद जैन (आर आर : 99)	20.09.99 (पूर्वाह्न)	19.09.01	20.09.01
2. नितीश कुमार (आर आर : 99)	10.01.2000 (पूर्वाह्न)	09.01.02	10.01.02
3. केशव राम (आर आर : 03)	22.12.03 (पूर्वाह्न)	21.12.05	22.12.05
4. विधि कुमार बिरधी (आर आर : 03)	22.12.03 (पूर्वाह्न)	21.12.05	22.12.05

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आईपीएस-IV)

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 अक्टूबर 2009

सं. 13/16/2009-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्रीमती जयति चन्द्रा, भा.प्र.से. (उ.प्र. 1975) को दिनांक 01.10.2009 (पूर्वाह्न) से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में सचिव नियुक्त करते हैं।

अशोलि चलाई, उप सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2009

सं. 14013/08/2009-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारती प्रशासनिक सेवा के मध्य प्रदेश राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री विनोद सिंह बाघेल	1997	09.12.2006
2.	श्री श्याम सुन्दर बंसल	1998	13.04.2007
3.	श्री गणेश प्रसाद कबीरपंथी	1998	13.04.2007
4.	श्रीमती उर्मिला मिश्रा	1998	13.04.2007
5.	श्री कंदार लाल शर्मा	1999	11.12.2007
6.	श्री संतोष कुमार मिश्रा	1999	11.12.2007
7.	श्री योगेन्द्र शर्मा	1999	11.12.2007

शौकत अली, अवर सचिव

दिनांक 30 सितम्बर 2009

सं. 14013/06/2007-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारती प्रशासनिक सेवा के राजस्थान राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
1	2	3	4
1.	डॉ. प्रीतम बी. यशवंत	2003	01.09.2005
2.	श्री कृष्ण कुणाल	2003	01.09.2005
3.	श्री भानु प्रकाश येतुर	2003	01.09.2005

1	2	3	4
4.	श्री नीरज कुमार पवन	2003	01.09.2005
5.	श्री अम्बीश कुमार	2004	06.09.2006
6.	श्री रवि जैन	2004	06.09.2006
7.	डॉ. रवि कुमार सुर्पुर	2004	06.09.2006
8.	डॉ. समित शर्मा	2004	06.09.2006
9.	श्री ए. श्रीनिवासन (अब हरियाणा राज्य संवर्ग में)	2004	06.09.2006

शौकत अली, अवर सचिव

दिनांक 1 अक्टूबर 2009

सं. 14012/13/2008-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारती प्रशासनिक सेवा के हिमाचल प्रदेश राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	वैच	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्रीमती ममता	2004	06.09.2006
2.	श्री सी. पॉलरासू	2004	06.09.2006
3.	श्रीमती प्रियंका बसु इन्टि	2004	06.09.2006

शौकत अली, अवर सचिव

सं. 11019/47/2005-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति निदेश देते हैं कि यह मान लिया गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य और मूलतः महाराष्ट्र संवर्ग (महा. : 1990) के श्री ए. के. तिवारी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1995 के नियम 7(2) की शर्तों के अनुसार तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है।

शौकत अली, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर 2009

सं. 13017/29/2009-अ.भा.से.(I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मणिपुर-त्रिपुरा और झारखण्ड सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार श्री अरूण कुमार सिन्हा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एम.टी.: 99) को मणिपुर-त्रिपुरा के भा.प्र.से. संवर्ग से झारखण्ड के भा.प्र.से. संवर्ग में दी गई अंतः संवर्ग प्रतिनियुक्ति को, 16.09.09 से दो वर्ष की अवधि हेतु अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विस्तार देने के लिए एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करती है।

आर. के. गुप्ता, अवर सचिव

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त 2009

सं. 19011/10/2007-प्रशा.-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अगस्त, 2009 के का.ज्ञा.सं. 5/16/2007-सी.एस.-I द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा की ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्ति हेतु वर्ष 2003 की प्रवर सूची में उनके नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन तथा पेंशन भोगी कल्याण विभाग के श्री वी. के. वाधवा को दिनांक 01.07.2003 से और अगले आदेशों तक सीएसएस की ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं।

के. एस. चिब, उप सचिव

दिनांक 29 सितम्बर 2009

सं. 19011/10/2007-प्रशा.-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अगस्त, 2009 के का.ज्ञा.सं. 5/16/2007-सी.एस.-I द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा की ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्ति हेतु वर्ष 2003 की प्रवर सूची में उनके नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन तथा पेंशन भोगी कल्याण विभाग के श्री हरजीत सिंह को दिनांक 01.07.2003 से और अगले आदेशों तक सीएसएस की ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं।

के. एस. चिब, उप सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त 2009

सं. 19/पी.ए.-II/2009--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री किशोर डुडनी, 31 जुलाई, 2009 के अपराह्न में भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से सेवानिवृत्त हो गए।

आर. गौरव श्रेष्ठ, उप-सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2009

सं. 34/2009 (फा.सं. ए-38012/21/2009-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, सी. सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत श्री ओ. पी. कयारिया, जे. डी. आर., सीस्टेट, नई दिल्ली की दिनांक 01.10.2009 (पूर्वाह्न) से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की नोटिस स्वीकार करते हैं।

एस. के. देब, अवर सचिव

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2009

सं. 04/2009 (फा. सं. 32012/06/2009-प्रशा. IIक)--राष्ट्रपति, सी सी एस (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 48 के अंतर्गत दिनांक

01.10.2009 (पूर्वाह्न) से श्री एस. कृष्णमूर्ति, मुख्य लेखाधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की सूचना को स्वीकार करते हैं।

सुषमा कटरिया, अवर सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 01 अक्टूबर 2009

सं. ए-12025/01/2006-ई.जी.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा सेवा के कनिष्ठ समयमान वेतन में नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	से
1.	सुश्री स्मिता गोपाल	06.09.2004
2.	सुश्री स्मृति	20.12.2004
3.	इनामदार जे. रसूल	20.12.2004
4.	कार्तिकेय माथुर	09.05.2005

2. सभी 4 अधिकारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंतर्गत कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं।

आर. प्रेम आनन्द, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 सितम्बर 2009

सं. पी.एफ.जी. (642)/02-प्रशा.-II)--राष्ट्रपति, श्री लक्ष्मी प्रसाद कोला, जो भारतीय कारपोरेट विधि सेवा में कनिष्ठ समयमान अधिकारी हैं, को पदोन्नति होने पर दिनांक 24.08.2009 की पूर्वाह्न से वरिष्ठ समयमान (पी.बी.-3, 15,600--39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए) में नियुक्त करते हैं।

जे. एस. गुप्ता, अवर सचिव

सं. पी.एफ.जी. (642)/02-प्रशा.-II)--केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209-क(1)(ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय (दक्षिण क्षेत्र), कारपोरेट कार्य मंत्रालय, चेन्नई में उप-निदेशक, श्री लक्ष्मी प्रसाद कोला को उक्त धारा के प्रयोजन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

जे. एस. गुप्ता, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2009

सं. ए-15012/1/2005-प्रशा./स्था.--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अगस्त 2009 के का. ज्ञा. सं. 5/16/2007-सी.एस-I के

तहत सीएसएस के ग्रेड-I की वर्ष 2003 की चयन सूची में श्री एम. शहाबुद्दीन का नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति उन्हें (सीएसएल सं. 4530) 01.07.2003 से अवर सचिव के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. अवर सचिव के ग्रेड में नियमित आधार पर श्री शहाबुद्दीन की नियुक्ति, दिल्ली उच्च न्यायालय के सीडब्ल्यूपी सं. 13352/2005 के अंतिम परिणाम की शर्त पर होगी।

एच. सी. अग्रवाल, निदेशक

सं. ए-15012/1/2005-प्रशा./स्था.--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अगस्त 2009 के का. ज्ञा. सं. 5/16/2007-सी.एस-I के तहत सीएसएस के ग्रेड-I की वर्ष 2003 की चयन सूची में श्री जी. श्रीनिवासन का नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति उन्हें (सीएसएल सं. 5030) 01.07.2003 से अवर सचिव के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. अवर सचिव के ग्रेड के नियमित आधार पर श्री श्रीनिवासन की नियुक्ति, दिल्ली उच्च न्यायालय के सीडब्ल्यूपी सं. 13352/2005 के अंतिम परिणाम की शर्त पर होगी।

3. अवर सचिव के ग्रेड में उनका वेतन नोशनल आधार पर 01.07.2003 से निर्धारित किया जाएगा किन्तु वास्तविक लाभ दिनांक 18.02.2005 से ही उपलब्ध होंगे जिस तारीख से श्री श्रीनिवासन को सीएसएस के अवर सचिव के ग्रेड में नियुक्त किया गया।

एच. सी. अग्रवाल, निदेशक

सं. ए-15012/1/2005-प्रशा./स्था.--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अगस्त 2009 के का. ज्ञा. सं. 5/16/2007-सी.एस-I के तहत सीएसएस के ग्रेड-I की वर्ष 2003 की चयन सूची में श्री आनन्द प्रकाश का नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति उन्हें (सीएसएल सं. 5523) 01.07.2003 से अवर सचिव के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. अवर सचिव के ग्रेड में नियमित आधार पर श्री आनन्द प्रकाश की नियुक्ति, दिल्ली उच्च न्यायालय के सीडब्ल्यूपी सं. 13352/2005 के अंतिम परिणाम की शर्त पर होगी।

3. अवर सचिव के ग्रेड में उनका वेतन नोशनल आधार पर 01.07.2003 से निर्धारित किया जाएगा किन्तु वास्तविक लाभ दिनांक 31.01.2006 से ही उपलब्ध होंगे जिस तारीख से श्री आनन्द प्रकाश को सीएसएस के अवर सचिव के ग्रेड में नियुक्त किया गया।

एच. सी. अग्रवाल, निदेशक

सं. ए-15012/1/2005-प्रशा./स्था.--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अगस्त 2009 के का. ज्ञा. सं. 5/16/2007-सी.एस-I के तहत सीएसएस के ग्रेड-I की वर्ष 2003 की चयन सूची में श्रीमती एलिस

कुजूर का नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति उन्हें (सीएसएल सं. 6259) 01.07.2003 से अवर सचिव के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. अवर सचिव के ग्रेड में नियमित आधार पर श्रीमती कुजूर की नियुक्ति, दिल्ली उच्च न्यायालय के सीडब्ल्यूपी सं. 13352/2005 के अंतिम परिणाम की शर्त पर होगी।

3. अवर सचिव के ग्रेड में उनका वेतन नोशनल आधार पर 01.07.2003 से निर्धारित किया जाएगा किन्तु वास्तविक लाभ दिनांक 28.07.2005 से ही उपलब्ध होंगे जिस तारीख से श्रीमती कुजूर को सीएसएस के अवर सचिव के ग्रेड में नियुक्त किया गया।

एच. सी. अग्रवाल, निदेशक

सं. ए-15012/1/2005-प्रशा./स्था.--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अगस्त 2009 के का. ज्ञा. सं. 5/16/2007-सी.एस-1 के तहत सीएसएस के ग्रेड-I की वर्ष 2003 की चयन सूची में श्री बी. एस. राणा का नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति उन्हें (सीएसएल सं. 6273) 01.07.2003 से अवर सचिव के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. अवर सचिव के ग्रेड में नियमित आधार पर श्री राणा की नियुक्ति, दिल्ली उच्च न्यायालय के सीडब्ल्यूपी सं. 13352/2005 के अंतिम परिणाम की शर्त पर होगी।

3. अवर सचिव के ग्रेड में उनका वेतन नोशनल आधार पर 01.07.2003 से निर्धारित किया जाएगा किन्तु वास्तविक लाभ दिनांक 04.08.2005 से ही उपलब्ध होंगे जिस तारीख से श्री राणा को सीएसएस के अवर सचिव के ग्रेड में नियुक्त किया गया।

एच. सी. अग्रवाल, निदेशक

सं. ए-15012/1/2005-प्रशा./स्था.--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अगस्त 2009 के का. ज्ञा. सं. 5/16/2007-सी.एस-1 के तहत सीएसएस के ग्रेड-I की वर्ष 2003 की चयन सूची में श्रीमती कुसुम लता शर्मा का नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति उन्हें (सीएसएल सं. 5144) 01.07.2003 से अवर सचिव के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. अवर सचिव के ग्रेड में नियमित आधार पर श्रीमती कुसुम लता की नियुक्ति, दिल्ली उच्च न्यायालय के सीडब्ल्यूपी सं. 13352/2005 के अंतिम परिणाम की शर्त पर होगी।

3. अवर सचिव के ग्रेड में उनका वेतन नोशनल आधार पर 01.07.2003 से निर्धारित किया जाएगा किन्तु वास्तविक लाभ दिनांक 28.07.2005 से ही उपलब्ध होंगे जिस तारीख से श्रीमती शर्मा को सीएसएस के अवर सचिव के ग्रेड में नियुक्त किया गया।

एच. सी. अग्रवाल, निदेशक

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 24 सितम्बर 2009

सं. ए-19011/05/1999-प्रशा.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.08.2009 के का. ज्ञा. सं. 5/16/2007-सीएस-1 के तहत सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) की नियुक्ति हेतु केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अधिकारी के वर्ष 2003 की चयन सूची में उनका नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति श्री एस. पी. मदान, केन्द्रीय सचिवालय सेवा को नियमित आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

उपर्युक्त नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में सी डब्ल्यू पी. सं. 13352/2005 में अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

एस. के. नन्दा, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 2009

सं. 4-19/2008-प्रशा.--दूरसंचार विभाग के 28 अगस्त, 2009 के आदेश सं. 1-2/2009-प्रशा. I के अनुसार अपर सचिव, श्रीमती विजयलक्ष्मी के. गुप्ता, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, का दूरसंचार आयोग में सदस्य (वित्त) के रूप में चयन किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति उन्हें 4 सितम्बर, 2009 (अपराह्न) से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अपर सचिव के पदभार से मुक्त करते हैं।

शकुंतला जैन, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 सितम्बर 2009

सं. 17015/8/2008-आर.आई.सैल--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री एस. एस. शर्मा, सचिव, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, 30 सितम्बर, 2009 की अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर. ए. सिंह, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 सितम्बर 2009

सं. पी.एफ/1785/एनआईसी/2009-प्रशासन-I--श्री नरिन्द्र पाल सिंह चड्ढा, वैज्ञानिक "ई" (कर्मचारी कोड सं. 1785) की राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से दिनांक 30 सितम्बर, 2009 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति हुए हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (प्रशासन-I)

दिनांक 6 अक्टूबर 2009

सं. पी.एफ/412/एनआईसी/2009-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, एतद्द्वारा श्री शशीन्द्र कुमार, कर्मचारी कोड सं. 412 की राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान

केन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली में वैज्ञानिक "डी" के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को दिनांक 6 अक्टूबर, 2009 की पूर्वानुपूर्व से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (प्रशासन-I)

डाक विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 सितम्बर 2009

सं. 39-1/2006-प्रशा.--राष्ट्रपति सहर्ष डाक विभाग में निजी सचिवों के रूप में निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड "सी" की 9,300--34,800/- + 4,800/- रु. (ग्रेड वेतन) के संशोधित वेतन बैंड (पीबी-2) में तदर्थ आधार पर नियुक्ति की अवधि को 31.12.2009 तक या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामित नियमित निजी सचिव उपलब्ध कराने तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

1. श्री वी. के. भाटिया
2. श्री वी. पी. रंगा
3. श्री प्रभु दयाल
4. सुश्री गीता देवी
5. श्री सी. पी. अरोड़ा

2. यह नियुक्तियां पूर्णतया तदर्थ आधार पर हैं और अधिकारी को केन्द्रीय सचिवालय, आशुलिपिक सेवा के स्टेनो ग्रेड "ए एवं बी" विलयित निजी सचिव में नियमित नियुक्ति, वरिष्ठता अथवा पदोन्नति या स्थायीकरण के लिए पात्रता का दावा करने के लिए हक प्रदान नहीं करती।

भगवान दास, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2009

सं. ई (जी.पी.) 2005/1/55--भारतीय रेल सिग्नल एवं दूरसंचार सेवा (आई.आर.एस.एस.ई.) के ग्रुप 'ए' कनिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति के संदर्भ में जारी की गई दिनांक 17.07.2009 की समसंख्यक अधिसूचना में पूर्वोत्तर रेलवे के निम्नलिखित ग्रुप 'बी' अधिकारियों के नाम वर्ष 2008-09 की सूची में निकाल दिया जाए, क्योंकि वे प्रभावी तारीख जो कि 29.05.2009 है, से पूर्व ही सेवानिवृत्त हो चुके थे।

क्रम अधिकारियों के नाम
सं.

- सर्वश्री
1. के. आर. पी. सिंह
2. वी. एस. श्रीवास्तव
3. मनोज राय

के. बी. एल. मित्तल, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 30 सितम्बर 2009

सं. ई (जी. पी.) 2004/1/10--राष्ट्रपति माहेदय, रसायन एवं धातु विज्ञान विभाग, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के निम्नलिखित ग्रुप 'बी' अधिकारी की 25.05.2006 से, ग्रुप 'ए' वरिष्ठ वेतनमान में रसायन एवं धातु विज्ञानी के पद पर, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2004-05 के लिए पैनल

अधिकारी का नाम

श्री ए. के. दास (वर्तमान में राइट्स में कार्यरत)

के. बी. एल. मित्तल, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर 2009

सं. ए-22012/1/2008-स्था.--राष्ट्रपति, श्री स्वप्न कुमार गोस्वामी, (सीएसएल सं. 4493) जोकि वर्तमान में पोत परिवहन मंत्रालय में अवर सचिव (तदर्थ) आधार पर कार्यरत हैं, को वर्ष, 2003 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रेणी-I की चुनिंदा सूची (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 5/16/2007 सी.एस.-I दिनांक 25.08.2009 के संलग्नक में क्रम सं. 200 पर दर्ज) में सम्मिलित होने पर, अवर सचिव (नियमित) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अश्वनी कुमार, अवर सचिव

सं. ए-22012/1/2008-स्था.--राष्ट्रपति, श्री जय प्रकाश सैनी, (सीएसएल सं. 4559) जोकि वर्तमान में पोत परिवहन मंत्रालय में अवर सचिव (तदर्थ) आधार पर कार्यरत हैं, को वर्ष, 2003 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रेणी-I की चुनिंदा सूची (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 5/16/2007 सी.एस.-I दिनांक 25.08.2009 के संलग्नक में क्रम सं. 245 पर दर्ज) में सम्मिलित होने पर, अवर सचिव (नियमित) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अश्वनी कुमार, अवर सचिव

सं. ए-22012/1/2008-स्था.--राष्ट्रपति, श्री ए. एम. विजयन, (सीएसएल सं. 4969) जोकि वर्तमान में पोत परिवहन मंत्रालय में अवर सचिव (तदर्थ) आधार पर कार्यरत हैं, को वर्ष, 2003 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रेणी-I की चुनिंदा सूची (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 5/16/2007 सी.एस.-I दिनांक 25.08.2009 के संलग्नक में क्रम सं. 531 पर दर्ज) में सम्मिलित होने पर, अवर सचिव (नियमित) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अश्वनी कुमार, अवर सचिव

सं. ए-22012/1/2008-स्था.--राष्ट्रपति, श्री सच्ची कांता साहु, (सीएसएल सं. 5173) जोकि वर्तमान में पोत परिवहन मंत्रालय में अवर

सचिव (तदर्थ) आधार पर कार्यरत हैं, को वर्ष, 2003 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रेणी-I की चुनिंदा सूची (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 5/16/2007 सी.एस.-I दिनांक 25.08.2009 के संलग्नक में क्रम सं. 680 पर दर्ज) में सम्मिलित होने पर, अवर सचिव (नियमित) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अश्वनी कुमार, अवर सचिव

सं. ए-22012/1/2008-स्था.--राष्ट्रपति, श्री देबासीस पाल, (सीएसएल सं. 4907) जोकि वर्तमान में पोत परिवहन मंत्रालय में अवर सचिव (तदर्थ) आधार पर कार्यरत हैं, को वर्ष, 2003 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रेणी-I की चुनिंदा सूची (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 5/16/2007 सी.एस.-I दिनांक 25.08.2009 के संलग्नक में क्रम सं. 491 पर दर्ज) में सम्मिलित होने पर, अवर सचिव (नियमित) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अश्वनी कुमार, अवर सचिव

सं. ए-22012/1/2008-स्था.--राष्ट्रपति, श्री अरुण कुमार गौड़, (सीएसएल सं. 4716) जोकि वर्तमान में पोत परिवहन मंत्रालय में अवर सचिव (तदर्थ) आधार पर कार्यरत हैं, को वर्ष, 2003 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रेणी-I की चुनिंदा सूची (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 5/16/2007 सी.एस.-I दिनांक 25.08.2009 के संलग्नक में क्रम सं. 357 पर दर्ज) में सम्मिलित होने पर, अवर सचिव (नियमित) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अश्वनी कुमार, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2009

सं. 14/1/2005-डीवीसी--केन्द्र सरकार, समय-समय पर यथा संशोधित दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 (1948 का XIV) की धारा 6 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा, श्री उमेश कुमार, वित्त नियंत्रक, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख अर्थात् 22 सितम्बर, 2009 (पूर्वाह्न) से 5 वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर वित्तीय सलाहकार, दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के पद पर नियुक्त करती है।

एस. नारायणन, अवर सचिव

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 सितम्बर 2009

सं. 2/2/2004-प्रशासन-I—महामहिम राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित अवर सचिवों को दिनांक 1 जुलाई, 2003 से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (वर्ष 2003 के लिए चयनित सूची) में नियुक्त किया जाता है।

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. श्री मोहन लाल | सीएसएल सं. 4369 |
| 2. श्री प्रेम चन्द | सीएसएल सं. 5527 |
| 3. श्री भानु सुरेन्द्र | सीएसएल सं. 5668 |

2. उपरोक्त अधिकारियों की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में नियुक्ति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अगस्त, 2009 के का. ज्ञा. सं. 5/16/2007-सी.एस.-I में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी।

सुरेश कुमार, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 24th September 2009

No. RS/6/4/2009/76-Perl.—Shri Y. Satya Kumar has been appointed as Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- in the personal staff of Chairman, Committee on Home Affairs (Shri M. Venkaiah Naidu) with effect from the forenoon of 1st September, 2009, until further orders.

2. The appointment of Shri Y. Satya Kumar is at the discretion of the present Chairman, Committee on Home Affairs and will be co-terminus with the term of his office.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

No. RS/6/4/2009/77-Perl.—Shri Satish Dhar has been appointed as Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- in the personal staff of Chairman, Committee on Commerce (Shri Shanta Kumar) with effect from the forenoon of 31st August, 2009, until further orders.

2. The appointment of Shri Satish Dhar is at the discretion of the present Chairman, Committee on Commerce and will be co-terminus with the term of his office.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

No. RS/6/5/2009/78-Perl.—The services of Shri Paritosh Bhattacharya, who had been appointed as Private Secretary on co-terminus basis in the Rajya Sabha Secretariat in the personal staff of Shri S.S. Ahluwalia, former Chief Whip of BJP in Rajya Sabha, stand terminated w.e.f. the forenoon of 3rd June, 2009.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

No. RS/6/5/2009/79-Perl.—Shri Paritosh Bhattacharya has been appointed as Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- in the personal staff of Deputy Leader of BJP in Rajya Sabha (Shri S.S. Ahluwalia) with effect from the forenoon of 3rd June, 2009, until further orders.

2. The appointment of Shri Paritosh Bhattacharya is at the discretion of the present Deputy Leader of BJP in Rajya Sabha and will be co-terminus with the term of his office.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

No. RS/6/5/2009/80-Perl.—Shri Keshav Kumar has been appointed as Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- in the personal staff of Chief Whip of BJP in Rajya Sabha (Smt. Maya Singh) with effect from the forenoon of 1st July, 2009, until further orders.

2. The appointment of Shri Keshav Kumar is at the discretion of the present Chief Whip of BJP in Rajya Sabha and will be co-terminus with the term of her office.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

CABINET SECRETARIAT/MANTRIMANDAL
SACHIVALAYA

New Delhi, the 3rd September 2009

No. A-43013/01/2006-Ad-I—Consequent upon inclusion of their names in the Select List for the year 2003 of the officers of the Central Secretariat Service (CSS) for appointment to Grade-I (Under Secretary) of the Service vide Department of Personnel and Training's Office Memorandum No. 5/16/2007-CS.I dated 25th August, 2009, the President is pleased to appoint the following Grade-I Officers (Under Secretary) (Ad-hoc) of this Secretariat to the Grade-I (Under Secretary) of CSS on regular basis with effect from 1st July, 2003 :—

S. No.	Name
S/Shri (S.No. & CSL No. of Annexure to DOP&T's OM No. 5/16/2007-CS.I dated 25.08.2009)	
1.	R. Krishnamurthy (S.No. 101)(CSL No. 4333)
2.	A. Mohanan (S.No. 276)(CSL No. 4597)
3.	M. Dinakaran (S.No. 295)(CSL No. 4619)
4.	Ved Prakash Arora (S.No. 325)(CSL No. 4679)
5.	Dinesh Arora (S.No. 487)(CSL No. 4900)
6.	M.P. Sajeevan (S.No. 505)(CSL No. 4929)

SUNIL MISHRA, Dir.

New Delhi, the 16th September 2009

No. A-19012/01/2009-Ad-I—The President is pleased to appoint Dr. G. Narendra Kumar, IAS (UT:89) as Joint Secretary & Director in the National Authority for Chemical Weapons Convention under the Cabinet Secretariat, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from the forenoon of 10th September, 2009 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

R. KRISHNAMURTHY, Under Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560231, the 30th September 2009

No. 2/1/6/2004-I—Consequent on his repatriation, Shri S. V. Ranganath, IAS (KN:75) has relinquished the charge of the post of Member (Finance), Space Commission, Atomic Energy Commission and Earth Commission in the Department of Space with effect from the forenoon of September 30, 2009.

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 4th September 2009

No. F.6 (2064)/2008-Adm.I—In pursuance of approval of Competent Authority as conveyed by the Department of Personnel & Training vide their Order No. 14/4/2009-EO (SM.I), dated 01.09.2009, Shri Bhaskar Chatterjee, IAS (OR:75), Principal Adviser, Planning Commission is relieved from Planning Commission w.e.f. forenoon of 7/9/2009 for taking up his new assignment as Secretary, Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 10th September 2009

No. A-43014/02/2009-Admn.II—Consequent upon his regular promotion to Junior Administrative Grade (JAG) of Indian Economic Service and posting as Deputy Economic Adviser, Directorate of Economics & Statistics, Department of Agriculture & Co-operation vide Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Order No. 13016/3/2009-IES dated 04.09.2009, Shri Ganga Ram, Senior Research Officer, Planning Commission is relieved of his duties with effect from 10.09.2009 (AN).

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 11th September 2009

No. F.6(2102)/2009-Adm.I—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. P-7/2009 dated 04.09.2009 issued from their file No. 13016/3/2009-IES, Shri Shiv Singh Meena, JAG officer of IES has assumed charge as Deputy Adviser in the Planning Commission in Pay Band-3 i.e. Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/- w.e.f. 07.09.2009 (FN).

2. His promotion to JAG is subject to the final outcome of the Civil Writ Petition 5953/02 pending in the Hon'ble High Court of Delhi.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 18th September 2009

No. A-12025/01/2005-Admn.II—In continuation of Planning Commission Notification of even number dated 24th March, 2009, the term of ad-hoc deputation period of Smt. Surekha Soni, Statistical Investigator, National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, New Delhi as Research Officer in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- in the Planning Commission is hereby extended till 12.03.2010, or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

2. The ad-hoc appointment will not bestow on Smt. Surekha Soni any claim for regular appointment in the grade of Research Officer and also that any service

rendered by her on ad-hoc basis in the grade of Research Officer would neither count for the purpose of seniority in the grade of Research Officer nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 23rd September 2009

No. A-12026/5/2000-Admn.1(L.D.)—Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2003 of the Officers of Central Secretariat Service (CSS) for appointment to Grade-I (Under Secretary) of the Service vide Department of Personnel and Training's OM No. 5/16/2007-CS.1 dated 25th August, 2009, Shri Bijender Singh, working as Under Secretary on ad-hoc basis in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice is appointed to the post of Under Secretary (Grade I of CSS) on regular basis with effect from 1st July, 2003.

2. The appointment of Shri Bijender Singh to the post of Under Secretary on regular basis shall be subject to the final outcome in the CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi.

M. R. BEERH, Dy. Secy.

The 25th September 2009

No. A-12025/02/2009-Admn.I(L.D.)—On the basis of recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Competent Authority in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice is pleased to appoint Shri R.S. Jayakrishnan, Assistant (Legal), presently officiating as Superintendent (Legal) on ad hoc basis in the Legislative Department, to the post of Superintendent (Legal) in the Pay Band of PB-2 Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- on regular basis in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the forenoon of 25th September, 2009 and until further orders.

M. R. BEERH, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 24th September 2009

No. A-12026/1/2005-Admn.I (LA)—The Competent Authority in the Department of Legal Affairs is pleased to appoint Smt. Champa Bisht, a regular Senior Library Information Assistant in this Department as Librarian Grade I (in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/-) on adhoc basis in Library and Research Section of this Department w.e.f. 12.08.2009 (forenoon) for a period of one year or till a regular incumbent is appointed to the post or until further orders whichever is earlier.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

New Delhi, the 30th September 2009

No. A-38013/3/2009-Admn.IV(LA)—On attaining the age of superannuation, Shri Sukhvinder Singh Grewal, Private Secretary, retires from Government Service with effect from the afternoon of 30th September, 2009.

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 29th September 2009

No. I-18011/11/2009-IPS-IV—In exercise of powers conferred by Rule 3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Smt. Dhanpreet Kaur, IPS (PB:06), in Indian Police Service with effect from 29.08.2008.

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS.IV)

No. I-18011/13/2009-IPS-IV—In exercise of powers conferred by Rule 3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following IPS officers in Indian Police Service with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No.	Name of IPS Probationer	Date of appointment of IPS	Date of completion of period of probation in normal course	Date of Confirmation
1.	Ms. Sumedha	22.08.2005(FN)	21.08.2007	22.08.2007
2.	Sh. Ashok Kumar	29.08.2008(FN)	28.08.2008	29.08.2008
3.	Sh. Abhishek Dular	30.08.2006(FN)	29.08.2008	30.08.2008

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS.IV)

No. I-18011/12/2009-IPS-IV—In exercise of powers conferred by Rule 3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following IPS officers in Indian Police Service with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No.	Name of IPS Probationer	Date of Confirmation
1.	Smt. Param Jyoti	22.08.2007
2.	Shri Vijayendra Bidri	12.12.2007
3.	Shri Vishnu Kant	12.12.2007
4.	Shri Ajay Pal Lamba	12.12.2007

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS.IV)

The 6th October 2009

No. I-18011/6/1998-IPS-IV—In exercise of powers conferred by Rule 3A of Indian Police Service (Probation)

Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following IPS officers in Indian Police Service with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No.	Name of IPS Probationer	Date of appointment of IPS	Date of completion of period of probation in normal course	Due Date of Confirmation in the normal course
1.	Sh. V.V. Srinivasa Rao (RR:95)	05.09.1996	04.09.1998	05.09.1998

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS.IV)

No. I-18011/17/2009-IPS-IV—In exercise of powers conferred by Rule 3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following IPS officers in Indian Police Service with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No.	Name of IPS Probationer	Date of appointment of IPS	Date of completion of period of probation in normal course	Due Date of Confirmation in the normal course
1.	Sh. S. Anand Jain (RR:99)	20.09.1999 (FN)	19.09.2001	20.09.2001
2.	Sh. Nitish Kumar (RR:99)	10.01.2000 (FN)	09.01.2002	10.01.2002
3.	Sh. Keshav Ram (RR:03)	22.12.2003 (FN)	21.12.2005	22.12.2005
4.	Sh. Vidhi Kumar Birdhi (RR:03)	22.12.2003 (FN)	21.12.2005	22.12.2005

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS.IV)

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi-110011, the 5th October 2009

No. 13/16/2009-Admn.—The President is pleased to appoint Ms. Jayati Chandra, IAS (UP:1975), as Secretary, in the Ministry of Development of North Eastern Region, w.e.f. 01.10.2009 (F.N.).

ASHOLI CHALAI, Dy. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSIONS (DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 29th September 2009

No. 14013/08/2009-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State

Cadre of Madhya Pradesh, with effect from the dates shown against them :—

Sl. No.	Name of the Officer	Batch	Date of Confirmation
1.	Shri Vinod Singh Baghel	1997	09.12.2006
2.	Shri Shyam Sunder Bansal	1998	13.04.2007
3.	Shri Ganesh Prasad Kabirpanthi	1998	13.04.2007
4.	Smt. Urmila Mishra	1998	13.04.2007
5.	Shri Kedar Lal Sharma	1999	11.12.2007
6.	Shri Santosh Kumar Mishra	1999	11.12.2007
7.	Shri Yogendra Sharma	1999	11.12.2007

SHAUKAT ALI, Under Secy.

The 30th September 2009

No. 14012/06/2007-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Rajasthan, with effect from the dates shown against them :—

Sl. No.	Name of the Officer	Batch	Date of Confirmation
1.	Dr. Pritam B. Yashvant	2003	01.09.2005
2.	Shri Krishna Kunal	2003	01.09.2005
3.	Shri Bhanu Prakash Yeturu	2003	01.09.2005
4.	Shri Niraj Kumar Pawan	2003	01.09.2005
5.	Shri Ambrish Kumar	2004	06.09.2006
6.	Shri Ravi Jain	2004	06.09.2006
7.	Dr. Ravi Kumar Surpur	2004	06.09.2006
8.	Dr. Samit Sharma	2004	06.09.2006
9.	Shri A. Sreenivas (Now in State Cadre of Haryana)	2004	06.09.2006

SHAUKAT ALI, Under Secy.

The 1st October 2009

No. 14012/13/2008-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State

Cadre of Himachal Pradesh, with effect from the dates shown against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Batch	Date of Confirmation
1.	Smt. Mamta	2004	06.09.2006
2.	Shri C. Paulrasu	2004	06.09.2006
3.	Smt. Priyanka Basu Ingty	2004	06.09.2006

SHAUKAT ALI, Under Secy.

No. 11019/47/2005-AIS-III—The President is pleased to direct that Shri A. K. Tiwari, a member of the Indian Administrative Service, borne on the Cadre of Maharashtra (MH:90) is deemed to have resigned from the Indian Administrative Service with immediate effect in terms of rule 7(2) of the All India Services (Leave) Rules, 1955.

SHAUKAT ALI, Under Secy.

New Delhi, the 15th September 2009

No. 13017/29/2009-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Government of Manipur-Tripura and Jharkhand the Central Govt. hereby accords approval for the extension of the inter cadre deputation of Shri Arun Kumar Sinha, IAS (MT:99) from the IAS cadre of Manipur-Tripura to Jharkhand cadre for a further period of two years w.e.f. 16.09.2009 or until further orders whichever is earlier.

R. K. GUPTA, Under Secy.

DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONERS' WELFARE

New Delhi, the 27th August 2009

No. 19011/5/2007-Admn.I—Consequent upon inclusion his name in the Select List of the year 2003 for appointment to Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) vide Department of Personnel & Training O.M. No. 5/16/2007-CS.I dated 25th August 2009, the President is pleased to appoint Shri V. K. Wadhwa of Department of Pension & Pensioners' Welfare, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, to the Grade-I (Under Secretary) of CSS on regular basis w.e.f. 01.07.2003 and until further orders.

K. S. CHIBB, Dy. Secy.

The 29th September 2009

No. 19011/10/2007-Admn.I—Consequent upon inclusion his name in the Select List of the year 2003 for appointment to Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) vide Department of Personnel & Training O.M. No. 5/16/2007-CS.I dated 25th August 2009, the President is

pleased to appoint Shri Harjit Singh of Department of Pension & Pensioners' Welfare, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, to the Grade-I (Under Secretary) of CSS on regular basis w.e.f. 01.07.2003 and until further orders.

K. S. CHIBB, Dy. Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 3rd August 2009

No. 19/PA-II/2009—On attaining the age of superannuation, Shri Kishore Dudani, retired from Junior Administrative Grade of the Indian Foreign Service on the afternoon of 31st July, 2009.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 30th September 2009

INDIAN REVENUE SERVICE (CUSTOMS & CENTRAL EXCISE) ESTABLISHMENTS

No. 34 of 2009 (F. No. A-38012/21/2009-Ad.II)—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement of Shri O. P. Kataria, JDR, CESTAT, New Delhi with effect from 01.10.2009 (FN) under Rule 48 of the CCS (Pension) Rules, 1972.

S. K. DEB, Under Secy.

C. B. E. C.

New Delhi, the 29th September 2009

No. 04 of 2009 (F.No. A-32012/06/2009-Ad.IIA)—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement of Shri S. Krishnamurthy, Chief Accounts Officer, Commissionerate of Central Excise, Tirunelveli with effect from 01.10.2009 (FN) under Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972.

SUSHMA KATARIA, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 1st October 2009

No. A-12025/01/2006-EG—The President is pleased to appoint the following officers to the Junior Time Scale of Indian Audit and Accounts Service viz Rs. 8,000-275-13,500/- under the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1997 since revised w.e.f. 01.01.2006 to Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 5400/- under the Central Civil Services, (Revised Pay) Rules, 2008 with effect from the dates noted against each :—

Sl. No.	Name	With effect from
1.	Ms. Smita Gopal	06.09.2004
2.	Ms. Smriti	20.12.2004
3.	Sh. Inamdar J. Rasul	20.12.2004
4.	Sh. Kartikaye Mathur	09.05.2005

2. All the 4 officers are working in the Offices under the C&AG of India.

R. PREM ANAND, Under Secy.

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi, the 15th September 2009

No. PFG(642/02-Admn.II)—The President is pleased to appoint, on promotion, Shri Lakshmi Prasad Kolla, a Junior Time Scale Officer of the Indian Corporate Law Service to the Senior Time Scale (PB-3, Rs. 15,600—39,100/-+Grade Pay of Rs. 6,600/-) with effect from the forenoon of 24.08.2009.

J. S. GUPTA, Under Secy.

No. PFG (642/02-Admn.II)—In exercise of the powers conferred by Section 209-A(1)(ii) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorizes Shri Lakshmi Prasad Kolla, Deputy Director in the Office of Regional Director (Southern Region), Ministry of Corporate Affairs, Chennai for the purpose of the said section.

J. S. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 29th September 2009

No. A-15012/1/2005-Admn/Estt.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2003 of Grade-I of CSS vide Department of Personnel and Training's O.M. No. 5/16/2007-CS.I dated the 25th August, 2009, the President is pleased to appoint Shri M. Shahabudeen (CSL No. 4530) to the post of Under Secretary on regular basis with effect from 01.07.2003.

2. The appointment of Shri Shahabudeen to the grade of Under Secretary on regular basis, shall be subject to the final outcome in the CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi.

H. C. AGRAWAL, Dir.

No. A-15012/1/2005-Admn/Estt.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2003 of Grade-I of CSS vide Department of Personnel and Training's O.M. No. 5/16/2007-CS.I dated the 25th August, 2009, the President is pleased to appoint Shri G. Srinivasan

(CSL No. 5030) to the post of Under Secretary on regular basis with effect from 01.07.2003.

2. The appointment of Shri Srinivasan to the grade of Under Secretary on regular basis, shall be subject to the final outcome in the CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi.

3. His pay in the US Grade will be fixed from 01.07.2003 on notional basis but the actual benefits would be available only from 18.02.2005, the date from which Shri Srinivasan was so appointed to the grade of Under Secretary of CSS.

H. C. AGRAWAL, Dir.

No. A-15012/1/2005-Admn/Estt.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2003 of Grade-I of CSS vide Department of Personnel and Training's O.M. No. 5/16/2007-CS.I dated the 25th August, 2009, the President is pleased to appoint Shri Anand Prakash (CSL No. 5523) to the post of Under Secretary on regular basis with effect from 01.07.2003.

2. The appointment of Shri Anand Prakash to the grade of Under Secretary on regular basis, shall be subject to the final outcome in the CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi.

3. His pay in the US Grade will be fixed from 01.07.2003 on notional basis but the actual benefits would be available only from 31.01.2006, the date from which Shri Anand Prakash was so appointed to the grade of Under Secretary of CSS.

H. C. AGRAWAL, Dir.

No. A-15012/1/2005-Admn/Estt.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2003 of Grade-I of CSS vide Department of Personnel and Training's O.M. No. 5/16/2007-CS.I dated the 25th August, 2009, the President is pleased to appoint Smt. Alice Kujur (CSL No. 6259) to the post of Under Secretary on regular basis with effect from 01.07.2003.

2. The appointment of Smt. Kujur to the grade of Under Secretary on regular basis, shall be subject to the final outcome in the CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi.

3. Her pay in the US Grade will be fixed from 01.07.2003 on notional basis but the actual benefits would be available only from 28.07.2005, the date from which Smt. Kujur was so appointed to the grade of Under Secretary of CSS.

H. C. AGRAWAL, Dir.

No. A-15012/1/2005-Admn/Estt.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2003 of Grade-I of CSS vide Department of Personnel and Training's O.M. No. 5/16/2007-CS.I dated the 25th August,

2009, the President is pleased to appoint Shri V. S. Rana (CSL No. 6273) to the post of Under Secretary on regular basis with effect from 01.07.2003.

2. The appointment of Shri Rana to the grade of Under Secretary on regular basis, shall be subject to the final outcome in the CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi.

3. His pay in the US Grade will be fixed from 01.07.2003 on notional basis but the actual benefits would be available only from 04.08.2005, the date from which Shri Rana was so appointed to the grade of Under Secretary of CSS.

H. C. AGRAWAL, Dir.

No. A-15012/1/2005-Admn/Estt.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2003 of Grade-I of CSS vide Department of Personnel and Training's O.M. No. 5/16/2007-CS.I dated the 25th August, 2009, the President is pleased to appoint Smt. Kusum Lata Sharma (CSL No. 5144) to the post of Under Secretary on regular basis with effect from 01.07.2003.

2. The appointment of Smt. Kusum Lata to the grade of Under Secretary on regular basis, shall be subject to the final outcome in the CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi.

3. Her pay in the US Grade will be fixed from 01.07.2003 on notional basis but the actual benefits would be available only from 28.07.2005, the date from which Smt. Sharma was so appointed to the grade of Under Secretary of CSS.

H. C. AGRAWAL, Dir.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 24th September 2009

No. A-19011/05/1999-Admn.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2003 of the Officer of the Central Secretariat Service (CSS) for appointment to Grade-I (Under Secretary) of the Service vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/16/2007-CS.I dated 25.08.2009, the President is pleased to appoint Shri S. P. Madan, CSS, as Under Secretary on regular basis. His appointment will be deemed to have been made effective with effect from 01.07.2003, for the purpose of approved service.

The above appointment will be subject to the final outcome in the CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi.

S. K. NANDA, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 16th September 2009

No. 4-19/2008-Admn.—Consequent upon her selection as Member (Finance) in the Telecom Commission vide

Department of Telecommunications' Order No. 1-2/2009-Admn.I dated 28th August, 2009, the President is pleased to relieve Smt. Vijayalakshmy K. Gupta, IDAS Additional Secretary, from the Ministry of Women and Child Development with effect from 04th September, 2009 (AN).

SHAKUNTLA JAIN, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi-110115, the 30th September 2009

No. 17015/8/2008-RIC—On attaining the age of superannuation, Shri S. S. Sharma, Secretary, National Commission for Safai Karamcharis (NCSK) stands retired from Government service with effect from the afternoon of 30th September, 2009.

R. A. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 30th September 2009

No. PF/1785/NIC/2009/Adm-I—Shri Narinder Pal Singh Chadha, Scientist "E" (Emp. Code: 1785), National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 30th September, 2009 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (Adm-I)

The 6th October 2009

No. PF/412/NIC/2009-Adm-I—The President is pleased to accept the Voluntary Retirement of Shri Shashindra Kumar, Emp. Code: 412 from the post of Scientist-D, NIC-Hqrs., New Delhi from the forenoon of 06.10.2009 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (Adm-I)

DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-110001, the 16th September 2009

No. 39-1/2006-Admn.—The President is pleased to extend the period of ad-hoc appointment of the following Stenographers Grade 'C' of CSSS as Private Secretaries in the Department of Posts in the Revised Pay Band (PB-2) of Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4800/- (Grade Pay) for the period upto 31.12.2009 or till regular Private Secretaries nominated by DoP&T become available or until further orders, whichever is earlier:—

1. Shri V. K. Bhatia
2. Shri V. P. Ranga
3. Shri Prabhu Dayal

4. Ms. Geeta Devi

5. Shri C. P. Arora

2. These appointments are purely on ad-hoc basis and will not bestow on the officers any claim for regular appointment, seniority or eligibility for promotion and confirmation in Steno Grade 'A&B' (Merged) (Private Secretaries) of Central Secretariat Stenographers Service.

BHAGWAN DAS, Asstt. Dir. Gen. (Admn.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 29th September 2009

CORRIGENDUM

No. E(GP)2005/1/55—In this Ministry's notification of even number dated 17.7.2009, regarding promotion to the Jr. Scale of IRSSE, the names of the following Group 'B' officers of North Eastern Railway may be omitted from the list for the year 2008-09 as these officers had retired and thus ceased to be in service on the date effect i.e. 29.5.2009 :—

Sl. No.	Name of the Officer
	S/Shri
1.	K. R. P. Singh
2.	V. S. Srivastava
3.	Manoj Rai

K. B. L. MITTAL, Secy.
(Railway Board)

The 30th September 2009

No. E(GP)2004/1/10—The President is pleased to appoint the undermentioned Group 'B' officer of Chemical and Metallurgical Department of Northeast Frontier Railway, to the post of Chemist and Metallurgist in Group 'A'/Senior Scale, with effect from 25.05.2006.

PANEL FOR 2004-05

Name of the Officer

1. Shri A. K. Das (presently working in RITES)

K. B. L. MITTAL, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi-110001, the 15th September 2009

No. A-22012/1/2008-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Swapan Kumar Goswami, (CSL No. 4493) Under Secretary (ad-hoc) presently working in the Ministry of Shipping, to Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service on regular basis against the Select List year 2003 (placed at S. No. 200 in Annexure of DoP&T O.M. No. 5/16/2007-CS.I dated 25.8.2009).

ASHWANI KUMAR, Dy. Secy.

No. A-22012/1/2008-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Jai Prakash Saini, (CSL No. 4559) Under Secretary (ad-hoc) presently working in the Ministry of Shipping, to Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service on regular basis against the Select List year 2003 (placed at S. No. 245 in Annexure of DoP&T O.M. No. 5/16/2007-CS.I dated 25.8.2009).

ASHWANI KUMAR, Dy. Secy.

No. A-22012/1/2008-Estt.—The President is pleased to appoint Shri A. M. Vijayan, (CSL No. 4969) Under Secretary (ad-hoc) presently working in the Ministry of Shipping, to Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service on regular basis against the Select List year 2003 (placed at S. No. 531 in Annexure of DoP&T O.M. No. 5/16/2007-CS.I dated 25.8.2009).

ASHWANI KUMAR, Dy. Secy.

No. A-22012/1/2008-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Sachi Kanta Sahoo, (CSL No. 5173) Under Secretary (ad-hoc) presently working in the Ministry of Shipping, to Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service on regular basis against the Select List year 2003 (placed at S. No. 680 in Annexure of DoP&T O.M. No. 5/16/2007-CS.I dated 25.8.2009).

ASHWANI KUMAR, Dy. Secy.

No. A-22012/1/2008-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Debasis Pal, (CSL No. 4907) Under Secretary (ad-hoc) presently working in the Ministry of Shipping, to Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service on regular basis against the Select List year 2003 (placed at S. No. 491 in Annexure of DoP&T O.M. No. 5/16/2007-CS.I dated 25.8.2009).

ASHWANI KUMAR, Dy. Secy.

No. A-22012/1/2008-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Arun Gaur, (CSL No. 4716) Under Secretary (ad-hoc) presently working in the Ministry of Shipping, to Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service on regular basis against the Select List year 2003 (placed at S. No. 357 in Annexure of DoP&T O.M. No. 5/16/2007-CS.I dated 25.8.2009).

ASHWANI KUMAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 30th September 2009

No. 14/1/2005-DVC—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (1) of Section 6 of Damodar Valley Corporation Act, 1948 (XIV of 1948) as amended from time to time, the Central Government hereby appoints Shri Umesh Kumar, Finance Controller, Jharkhand State Electricity Board as Financial Adviser, Damodar Valley Corporation, Kolkata, on deputation basis for a period of five years from the date of assumption of charge of the post i.e. 22nd September, 2009 (F/N) or until further orders, whichever event takes place earlier.

S. NARAYANAN, Under Secy.

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110003, the 22nd September 2009

No. 2/2/2004-Adm.I—The President is pleased to appoint the following Under Secretaries to Grade-I (Select List for the year 2003) of CSS w.e.f. 1st July, 2003:—

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Shri Mohan Lal | CSL No. 4369 |
| 2. Shri Prem Chand | CSL No. 5527 |
| 3. Shri Bhanu Surender | CSL No. 5668 |

2. The appointment of above officers to the Grade-I of CSS will be governed by the terms and conditions stipulated in the Department of Personnel & Training O.M. No. 5/16/2007-CS.I dated 25th August, 2009.

SURESH KUMAR, Under Secy.